



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 मार्च, 2021

फाल्गुन 15, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 533/52-2-2021-2(255)-03 टी०सी०

लखनऊ, 6 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-15

वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं :-

- 1-श्री कुँवर दानिश अली, संसद सदस्य (लोक सभा), 1228 भन्डा पट्टी, हापुड़।
- 2-डा० एस० टी० हसन, संसद सदस्य (लोक सभा), हसन नर्सिंग होम, फैजगंज, मुरादाबाद।
- 3-श्री अबरार अहमद, सदस्य विधान सभा, अझुई, इसौली, सुल्तानपुर।
- 4-श्री नफीस अहमद, सदस्य विधान सभा, गोपालपुर, आजमगढ़।
- 5-श्री अब्दुल रज्जाक खॉ, एडवोकेट, दारुल रजिया 25/30 ख, जापलिंग रोड, प्राग नारायण रोड क्रासिंग, लखनऊ।
- 6-श्री इमरान माबूद खॉ, एडवोकेट, 3 पोनपा रोड, न्यू कैण्ट, प्रयागराज।
- 7-श्री अदनान फरूख शाह, मुतवल्ली 14/01, आल हिलाल, कुराघट, गोरखपुर।
- 8-श्री जुफर अहमद फारुकी, मुतवल्ली मोहल्ला शेख टोला, लहरपुर, सीतापुर।
- 9-मौलाना नईम-उर-रहमान सिद्दीकी, प्रधानाचार्य, दारुल उलूम फरंगी महल, लखनऊ।
- 10-श्रीमती सबीहा अहमद, 7 बाल्मीकि मार्ग, लालबाग, लखनऊ।
- 11-डा० तबस्सुम खान, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
बी० एल० मीणा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 533/LII-2-2021-2(255)-03T.C., dated March 6, 2021 :

No. 533/LII-2-2021-2(255)-03T.C.

Dated Lucknow, March 6, 2021

In exercise of the powers under sub-section (9) of section 14 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1995), the Governor is pleased to appoint with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following persons as members of the Uttar Pradesh Sunni Central Board of Waqfs :-

1. Shri Kunwar Danish Ali, M.P. (Lok Sabha), 1228 Bhandra Patti, Hapur.
2. Dr. S T. Hasan, M.P. (Lok Sabha), Hasan Nursing Home, Faizganj, Moradabad.
3. Shri Abrar Ahmad, M.L.A., Ajhni, Isauli, Sultanpur.
4. Shri Nafees Ahmad, M.L.A., Gopalpur, Azamgarh.
5. Shri Abdul Razzaq Khan, Advocate, Darul Razia, 25/30 Kha, Jopling Road, Prag Narayan Road Crossing, Lucknow.
6. Shri Imran Mabood Khan, Advocate, 3 Ponnappa Road, New Cantt., Prayagraj.
7. Shri Adnan Farrukh Shah, Mutawalli 14/01, Al-Hilal, Kunraghat, Gorakhpur.
8. Shri Zufar Ahmad Faruqui, Mutawalli Mohalla Sheikh Tola, Laharpur, Sitapur.
9. Maulana Naeemur Rahman Siddiqui, Principal, Darul Uloom Farangi Mahal, Lucknow.
10. Smt. Sabiha Ahmad, 7 Balmiki Marg, Lalbagh, Lucknow.
11. Dr. Tabassum Khan, Joint Director (Administration), Directorate of Medical Health, Lucknow.

By order,
B. L. MEENA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 774 राजपत्र-2021-(1643)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2021-(1644)-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।